

नकली नोट बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार:46 हजार 200 रुपए की नकली मुद्रा पकड़ी, स्मैक खरीदने के लिए छाप रहे थे नोट



पुलिस ने नकली नोट तस्करों पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 46 हजार 200 रुपए के नकली नोट और 34 हजार रुपए असली नोट बरामद किए हैं। आरोपी स्मैक खरीदने के लिए नकली नोट छाप रहे थे। मामला झालावाड़ जिले का है।

SP मोनिका सेन ने बताया कि जिला स्पेशल टीम के प्रभारी पुलिस निरीक्षक महेश सिंह और उपनिरीक्षक विष्णु प्रसाद ने भवानीमंडी रोड अनन्त विहार कॉलोनी में एक मकान पर दबिश देकर 4 व्यक्तियों को राउंड-अप किया। इनकी तलाशी में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिले। इनमें 500 रुपए के 77 नोट कुल 38 हजार 500 रुपए, 200 रुपए मूल्य वर्ग के 20 नोट कुल 4 हजार रुपए, 100 रुपए मूल्य वर्ग के 37 नोट कुल 3 हजार 7 सौ रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये नोट भारतीय मुद्रा के हुबहु समान प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही आरोपियों से 34 हजार के असली नोट भी बरामद हुए। नकली नोट जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है।

वीडियो देखकर तैयार किए नकली नोट

गिरफ्तार अभियुक्तों से प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त संदीप उर्फ कल्लू पंजाब पुलिस पटियाला का वांटेड अपराधी है। भवानीमण्डी में फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहा है। शमी उर्फ समीर से पता चला कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कलर प्रिन्टर की सहायता से भारतीय जाली मुद्रा बनाना सीखा था। संदीप कुमार उर्फ कल्लू उर्फ कालू ने बताया कि मोहम्मद अशरफ उर्फ पप्पू पठान भवानीमंडी से पहले जेल में एक साथ रहे हैं। तब से हमारी जान पहचान हुई। मोहम्मद अशरफ उर्फ पप्पू पठान पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी पचपहाड ने यह कमरा किराये पर लिया था।

स्मैक खरीदने के लिए प्रिन्टर के माध्यम से नकली नोट बना रहे थे। जाली मुद्रा देखने में असली नजर आती है। इसे आसानी से बाजार में चला देते हैं। मकान धतुरिया कलाथाना पिडावा निवासी मोहनलाल पुत्र मागीलाल मेघवाल का है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/kota/jhalawar/news/fake-currency-racket-in-rajasthan-jhalawar-update-129669979.html>